

वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016-श्रावण 21, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी शैक्षणिक योग्यता बीना गोयल के नाम से हुई है। शादी उपरांत मेरा नाम श्रीमती बीना गुप्ता पत्नी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता हो गया था। अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर अंजू गुप्ता पत्नी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता रख लिया है। अतः मुझे भविष्य में सभी विधिक एवं शासकीय अभिलेखों में अंजू गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(बीना गुप्ता)

(BEENA GUPTA)

नया नाम :

(अंजू गुप्ता)

(ANJU GUPTA)

पत्नि स्व. श्री प्रमोद कुमार गुप्ता,
निवासी—137, डाक बंगला रोड,
गाँधी कॉलोनी, शिवपुरी (म. प्र.)।

(277-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, देवेन्द्र रैकवार पुत्र स्व. श्री गणेशराम रैकवार, निवासी वार्ड क्र. 29, मकान क्र. 75, शेरपुरा, विदिशा, जिला विदिशा शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि अब मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर देवेन्द्र यादव कर लिया है। अतः भविष्य में मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय/शिक्षा सम्बन्धी अभिलेखों में मेरा परिवर्तित नाम देवेन्द्र यादव दर्ज किया जाकर पढ़ा जावे व अब से मुझे देवेन्द्र यादव नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(देवेन्द्र रैकवार)

(278-बी.)

नया नाम :

(देवेन्द्र यादव)

पता—वार्ड नंबर 29, शेरपुरा,
विदिशा (म.प्र.)।

CHANGE OF NAME

My Old Name is Arun Kumar R/o C-2, 72 Quarters, Dushari Paltan, Aerodrum Road, Indore (M.P.) have changed my name, My new name is now known and called Arun Kumar Singh Chauhan.

Old Name :

(ARUN KUMAR)

(279-B.)

New Name :

(ARUN KUMAR SINGH CHAUHAN)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार कुशवाह पिता गोपाल शरण सिंह कुशवाह दर्ज है, अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके जितेन्द्र सिंह कुशवाह पिता गोपाल सिंह कुशवाह कर लिया है, आज से भविष्य में मुझे मेरे नए नाम जितेन्द्र सिंह कुशवाह पिता गोपाल सिंह कुशवाह (JITENDRA SINGH KUSHWAH S/o SHRI GOPAL SINGH KUSHWAH) से जाना-पहचाना एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

(जितेन्द्र कुमार कुशवाह)

(280-बी.)

नया नाम :

(जितेन्द्र सिंह कुशवाह)

बीजी-177, स्कीम नं. 74-सी,
विजय नगर, इंदौर (म. प्र.).**आम सूचना**

मैं, श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी श्री मैथलीशरण गुप्ता, आयु 46 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी-श्रृष्टि भवन, माधव बाल निकेतन के सामने, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मैं, शपथपूर्वक सत्य कथन करती हूँ कि—

यहकि मैं, उपरोक्त पते पर निवास कर मध्यप्रदेश जिला ग्वालियर की मूल निवासी हूँ, यहकि मुझ शपथकर्ता की पुत्री कु. छाया गुप्ता के कक्षा 10वीं व 12वीं की अंकसूची एवं प्रमाणपत्रों में पुत्री की माँ का नाम यानी शपथकर्ता का नाम त्रुटिवश कंचन गुप्ता अंकित कर दिया गया है जबकि पुत्री की माँ यानी शपथकर्ता का सही नाम एवं रिकार्ड नाम निशा गुप्ता है।

यहकि शपथकर्ता की अपनी पुत्री के कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची एवं प्रमाणपत्रों में पुत्री की माँ का सही नाम निशा गुप्ता अंकित करना है।

यहकि कंचन गुप्ता एवं निशा गुप्ता उक्त दोनों नाम शपथकर्ता के ही हैं किसी अन्य के नहीं हैं एवं कु. छाया गुप्ता शपथकर्ता की ही पुत्री है उपरोक्त कथनों की सत्यता की पुष्टि में शपथ प्रस्तुत है।

पुराना नाम :

(कंचन गुप्ता)

(281-बी.)

नया नाम :

(निशा गुप्ता)

पत्नी श्री मैथलीशरण गुप्ता,
निवासी-श्रृष्टि भवन, माधव बाल निकेतन के सामने,
लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मुझ शपथकर्ता के ए.ल. आई. सी. पोलिसी क्रमांक 200696590 में मेरा नाम पार्वतीदेवी राठौर अंकित करा दिया है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों, बैंक खाते में मेरा नाम कलावती राठौर अंकित है, उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं, अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम कलावती राठौर के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(पार्वती देवी राठौर)

(282-बी.)

नया नाम :

(कलावती राठौर)

निवासी-चित्रा जनरल स्टोर नाका चन्द्रवदनी,
लश्कर, ग्वालियर.

NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s HARI FARMS" of Bhopal *vide* Registration No. 01/01/01/00141/15, dated 27-06-2015 undergone the following changes:-

2. That Shri Prakash Hariramani S/o Shri Shyamdas Hariramani, Shri Arun Hariramani S/o Shri Shyamdas Hariramani and Shri Kishore Hariramani S/o Shri Shyamdas Hariramani has desire to retire from the partnership firm w. e. f. 31-08-2015 and Shri Jagdish Kumar Arora and M/s Som Distilleries Pvt. Ltd. has joined the Partnership Firm w. e. f. 01-09-2015.

"M/s HARI FARMS"
VIJAY HARIRAMANI,

(Partner)

(283-B.)

61-B-Kasturba Nagar, Bhopal (M.P.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जय बजरंग एसोसिएट्स मकान नं. 130, ग्राम खेरवाया, पोस्ट समाया, तह. चीनौर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्रमांक 2 श्री संदीप सिंह राणा पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह राणा, उम्र 27 वर्ष, पता-न्यू कॉलोनी घोसीपुरा, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश को अपनी फर्म से दिनांक 06-07-2016 को फर्म से अलग किया जा रहा है। अब आगे इनका इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं इनके स्थान पर नवीन साझेदार श्रीमती राणी पत्नी श्री सोनू बाबू राणा, उम्र 28 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-130, ग्राम खेरवाया, पोस्ट समाया, तह. चीनौर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश को अपनी फर्म में दिनांक 06-07-2016 को सम्मिलित किया जा रहा है और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं। इसी क्रम में साझेदारों की सहमति से फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है। फर्म का पता मकान नं. 352, न्यू कॉलोनी घोसीपुरा, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश था अब उसके स्थान पर नवीन पता मकान नं. 130, ग्राम-खेरवाया, पोस्ट समाया, तह. चीनौर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश किया गया है।

For M/s Jay Bajrang Associate,

सोनू बाबू राणा,
(Partner).

(284-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि भागीदारी फर्म मैसर्स पटेल एण्ड एसोसिएट्स, पता-131, ओल्ड अशोक गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल मध्यप्रदेश जो कि रजिस्ट्रर फर्म्स एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 69, वर्ष 2002-2003, दिनांक 29-08-2002 पर पंजीयत फर्म है, जिसका गठन भागीदार श्री मनोज नायक पिता श्री बी. एल. नायक एवं श्री अशोक पटेल पिता श्री ए. एल. पटेल एवं श्री प्रमोद नायक पिता श्री बी. एल. नायक की भागीदारी में किया गया था। दिनांक 31-03-2006 को श्री मनोज नायक पिता श्री बी. एल. नायक, श्री प्रमोद नायक पिता श्री बी. एल. नायक स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं 31-03-2006 से उनके स्थान पर सौरभ पटेल पिता श्री ए. एल. पटेल एवं श्रीमती ममता सिंह पत्नी श्री अशोक पटेल भागीदार के रूप में प्रवेश कर लिया है।

इसके पश्चात दिनांक 31-03-2011 को श्री एस. एल. सिंह पिता स्व. श्री आर. एस. सिंह भागीदार के रूप में प्रवेश कर लिया है, अतः वर्तमान में फर्म श्री अशोक पटेल एवं श्री सौरभ पटेल एवं श्रीमती ममता सिंह एवं श्री एस. एल. सिंह की भागीदारी में संचालित की जा रही है।

प्रदीप कुमार शर्मा,
(अधिकारी)

ए-48, डॉ. अम्बेडकर कॉलोनी,
ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल-462023.

(285-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि भागीदारी फर्म मैसर्स आम्सर्स कंस्ट्रक्शन, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00155/10, दिनांक 16-06-2010 में से भागीदार Mr. Mohd Quddoos S/o Mohd Iliyas Ansari फर्म की भागीदारी से दिनांक 05-08-2012 से पृथक हो गए हैं। दिनांक 05-08-2012 से उक्त फर्म में केवल दो ही भागीदार हैं, उक्त के अतिरिक्त फर्म की भागीदारी से Mr. Yusuf Khan S/o Late Shri Bashir Khan, दिनांक 01-04-2015 से पृथक हो गए हैं, तथा फर्म की भागीदारी में दिनांक 01-04-2015 से

Mrs. Rizwana Khan W/o Shri Aqueel Khan सम्मिलित हो गए हैं, वर्तमान में भागीदार Mr. Mansoor Maliq Khan S/o Shri Aqueel Khan एवं Mrs. Rizwana Khan W/o Shri Aqueel Khan द्वारा फर्म संचालित रहेगी।

उक्त संबंध में हमारे द्वारा आम सूचना दिनांक 20-07-2016 को दैनिक समाचार-पत्र स्वदेश में भी प्रकाशन कराया गया है। अतः तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को अधिलेख पर लेने की कृपा करें।

मैसर्स आर्स कंस्ट्रक्शन,
यूसुफ खान ,
(भागीदार)।

(286-बी.)

PUBLIC NOTICE

This declaration is for the change in constitution of Ratlam based Partnership Firm in the name of M/s HIGHWAY FUELS having registered address as Salakhedi, Ratlam, whereby Mr. Anwar Khurshid Haq S/o Fazal Haq has retired from the partnership and Mr. Rashid Ahmed Khan S/o Abdul Bashir, residing at 34, Laxmanpura, Ratlam has been admitted as new partner in the Partnership.

Above changes were made with effect from 28th July 2014.

M/s Highway Fuels
ASHOK JAIN,
(Partner).

(287-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैसर्स इन्फ्रा ड्वलपर्स, स्थित छत्री रोड, शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00065/05, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 है जिसमें दिनांक 08-04-2008 में भागीदारी श्री पूरन चन्द जैन पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 08-04-2008 को श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी पत्नी श्री अतुल कुमार चतुर्वेदी, निवासी-86, गोविन्दपुरा, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं, आम-जन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म इन्फ्रा ड्वलपर्स,
बालमुकुन्द शर्मा,
(भागीदार),
छत्री रोड, शिवपुरी।

(288-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रार्थी फर्म मैसर्स भूमि ड्वलपर्स, एम. आई. जी. 319, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर द्वारा फर्म रजिस्ट्रार ऑफिस दिनांक 22-07-2011 को पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00111/11, सन् 2011-12 में फर्म पंजीकृत की गई थी। जिसमें दिनांक 02-08-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1. श्री नवल किशोर मिश्रा पुत्र श्री भगवानदास मिश्रा, आयु 61 वर्ष, निवासी आलमपुर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स भूमि ड्वलपर्स,
धर्मेन्द्र मिश्रा,
(पार्टनर)।

(289-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि भागीदारी फर्म मै. मयूर इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, एच-105, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/0311/15, सन् 2015, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 रजिस्ट्रार पार्टनरशिप फर्म राजधानी भोपाल मध्यप्रदेश में दर्ज है। जिसमें दो भागीदार (1) श्री बी. एम. शर्मा आत्मज स्व. श्री बाबूलाल शर्मा, आयु 59 वर्ष, निवासी-105, सेक्टर-एच, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भोपाल, मध्यप्रदेश (2) श्री विशाल कपिल आत्मज श्री बी. के. कपिल, आयु 35 वर्ष,

निवासी गीत गणेश चिलास, अयोध्या बायपास, भोपाल मध्यप्रदेश के निवासी हैं। यहकि उपरोक्त भागीदारी फर्म का विघटन दिनांक 07-07-2016 से दोनों भागीदार श्री बी. एम. शर्मा एवं श्री विशाल कपिल के मध्य आपसी सहमति से हो गया है तथा दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। विघटन दिनांक से फर्म का किसी भी प्रकार का ऋण एवं देनदारी नहीं है। अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, शासकीय, अद्वशासकीय कार्यालय आदि को कोई भी अपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। 1. श्री बी. एम. शर्मा, 2. विशाल कपिल, मै. मयूर इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज भोपाल मध्यप्रदेश।

रंजना बाजपेयी मित्तल,
(अधिवक्ता)

(290-बी.)

16/1, संजय कॉम्प्लेक्स फेस 2, भोपाल।

नोटिस

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत्

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पार्टनरशिप फर्म मे. स्काई मीडिया, भोपाल मध्यप्रदेश फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01/01/01/0037/ 16, सन् 2016-17, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 जिसके पंजीयन का पता 272, जोन-02, एम. पी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश है। जिसे आज दिनांक से बदलकर नये पते पर स्थापित किया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है—

नया पता- एफ. बी. 05, द्वितीय तल, ए-ब्लाक, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, बीजेपी भवन के सामने भोपाल 462016.

For Sky Media

1. प्रदीप कुमार मित्तल,
 2. प्रकाश तिवारी,
 3. दुर्गेश केशवानी,
 4. दीपक गुप्ता,
- (भागीदार)।

(288-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र.क्र. 03/बी-113/15-16.

विदिशा, दिनांक 22 जुलाई, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1)देखिये]

आवेदक श्री सुरेन्द्र जैन, अध्यक्ष जैन मूल आगम संरक्षण समिति ट्रस्ट, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियों करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को उक्त अधिनियम, की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मैं मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : जैन मूल आगम संरक्षण समिति ट्रस्ट, विदिशा
श्री आदिनाथ जिनालय, खरीफाटक रोड़, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति : वर्तमान में कोई संपत्ति नहीं.
3. अचल सम्पत्ति : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किरी मोहल्ला, विदिशा में
खाता क्रमांक 3544627623 में 5000/- रु. जमा है.

(588)

प्र.क्र. 04/बी-113/15-16.

विदिशा, दिनांक 22 जुलाई, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1)देखिये]

आवेदक श्री सुरेश मोतियानी, अध्यक्ष रोटरी ग्रेटर विदिशा ट्रस्ट, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को उक्त अधिनियम, की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : रोटरी ग्रेटर विदिशा ट्रस्ट, तिलक चौक, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति : ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स विदिशा के
खाता क्रमांक 06581131000144 में 72,500 रु. जमा।
3. अचल सम्पत्ति : नहीं है।

(588-ए)

प्र.क्र. 02/बी-113/15-16.

विदिशा, दिनांक 22 जुलाई, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1)देखिये]

आवेदक श्री दातारसिंह पुत्र स्व. श्री बृजलाल लोधी, अध्यक्ष “ श्री लोधेश्वर सेवा न्यास ”, निवासी पीतलमील चौराहा, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : “श्री लोधेश्वर सेवा न्यास” विदिशा।
अवंतीबाई लोधी धर्मशाला नई मंडी के सामने, सागर रोड, विदिशा।
2. चल सम्पत्ति : भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट, शाखा विदिशा के खाता क्रमांक 35308369470 में 10,000/- रु. जमा।
3. अचल सम्पत्ति : मिर्जापुर स्थित भूमि सर्वे नं. 157/3 रकबा 0.256 हे. एवं सर्वे नं. 157/4 रकबा 0.209 हे. पर 2400 वर्गफीट में धर्मशाला का हाल एवं 02 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, जीना 1950 वर्गफीट में निर्मित है। शेष भूमि खुली है।

आर. पी. अहिरवार,
उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक।

(588-बी)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, कोलारस, जिला शिवपुरी

प्र.क्र. 01/2014-15/बी-113.

दिनांक 29 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के तहत]

चूँकि “सिद्ध स्थान पवा बसई, सर्व-साधारण के हितार्थ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक-स्वावलम्बन ग्राम/कृषि विकास, गौपालन, गौशाला विकास निर्माण संबंधी” की ओर से आवेदक श्री श्री 1008 बालमुकुन्द दास जी महाराज, निवासी सिद्ध स्थान पवा बसई, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 11 मई, 2015 को विचार में लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|---|
| लोक न्यास का नाम | : | “सिद्ध स्थान पवा बसई, सर्व-साधारण के हितार्थ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक-स्वावलम्बन ग्राम/कृषि विकास, गौपालन, गौशाला विकास निर्माण संबंधी”। |
| पता | : | श्री श्री 1008 बालमुकुन्द दास जी महाराज, निवासी सिद्ध स्थान पवा बसई, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी। |
| चल सम्पत्ति | : | पूजा के वर्तन पीतल के। |
| अचल सम्पत्ति | : | निल। |

आर. के. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी।

(589)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.), वनमण्डल , बुरहानपुर

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि बुरहानपुर वनमण्डल के निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु-स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।—

प्रपत्र—1

चराई वर्ष 2016-17 चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की सूची

परिक्षेत्र	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	202	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	211	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	206	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	193	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	218	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	226	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	225	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	224	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	204	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	207	50	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	233	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(बांस वृक्षारोपण)	215	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(बांस वृक्षारोपण)	206	100	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(गेप प्लांटिंग)	244	40	
नेपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(गेप प्लांटिंग)	188	30	

1	2	3	4	5	6
नैपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	186	50	
नैपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(गेप प्लांटिंग वृक्षारोपण)	189	25	
नैपानगर	2010-11	आर. डी. एफ.(मिश्रित वृक्षारोपण)	217	10	
नैपानगर	2010-11	बांस रोपण कार्य	192	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	194	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	30	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	192	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	217	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	229	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	40	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	227	30	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	222	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	233	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	186	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	187	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	223	50	
नैपानगर	2011-12	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	226	50	
नैपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	215	20	
नैपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	229	10	
नैपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	193	10	
नैपानगर	2011-12	ऊर्जा वन एवं चरागाह विकास	212	10	
नैपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण कार्य	217	10	
नैपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण (गैंप प्लांटिंग कार्य)	189	25	
नैपानगर	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण (गैंप प्लांटिंग कार्य)	193	25	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2011-12	बांस रोपण कार्य	192	40	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	186	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	224	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	226	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	222	50	
नेपानगर	2012-13	बांस रोपण कार्य	244	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	211	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	100	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	216	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	25	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	25	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	

1	2	3	4	5	6
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नैपानगर	2014-15	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	187	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	193	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	188	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	189	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	229	30	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	231	30	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	201	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	244	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	246	30	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	227	40	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	191	30	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	197	30	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	200	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	217	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	226	50	
नैपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	220	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. धुलकोट	95	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. उ. गंभीरपुरा	94	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. इटारिया	89	50	
धुलकोट	2010-11	आर. डी. एफ. उ. पाडल्या	85	50	
धुलकोट	2010-11	ऊर्जा बन एवं चारागाह विकास	92 (A)	10	
धुलकोट	2010-11	ऊर्जा बन एवं चारागाह विकास	92 (B)	10	
धुलकोट	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	92	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	89	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	94 (A)	50	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. धुलकोट	94 (B)	50	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	96	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	84 (A)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	84 (B)	50	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	99	100	
धुलकोट	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	98	100	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	64 (A)	10	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	64 (B)	15	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	89 (A)	10	
धुलकोट	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लांटिंग	89 (B)	10	
धुलकोट	2011-12	बांस वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	81	40	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	92	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	82	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	99	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	87	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	83	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	69	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	71	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	72	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	74	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	77	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	67	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	62	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	66	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	94	40	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	67	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	87	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	52	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	61	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	70	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	85	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	86	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	75	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	88	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	97	50	
धुलकोट	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	94	40	
धुलकोट	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	94	30	
धुलकोट	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	97	100	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	91	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	86	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	66	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	67	100	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	87	100	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	84	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	52	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	98	50	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	96	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	61	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	74	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	77	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	69	50	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	94	30	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	96	50	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	92	30	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	87	30	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	81	40	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	55	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	66	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	87	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	83	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	78	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	69	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	71	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	74	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	75	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	77	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	86	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	91	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	98	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	61	40	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	88	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	97	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	74	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	78	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	96	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	67	40	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	56	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	99	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	98	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	83	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	82	50	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2016-17	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2016-17	आर. डी. एफ.	97	50	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	134	100	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	135	100	
असीर	2010-11	आर. डी. एफ., पुरा	133	100	
असीर	2010-11	रा. रा. गा. योजना, कोटखेड़ा	130	100	
असीर	2010-11	रा. रा. गा. योजना, पू. नसीमपुरा	143	100	
असीर	2010-11	गेप प्लांटिंग, कोटराखेड़ा	130	10	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, असीर	P 152	50	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, निम्बोला	157	100	
असीर	2010-11	सा. वा. वृक्षारोपण, खातला	125	100	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	123	10	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	153 (A)	10	
असीर	2010-11	ऊर्जा वन एवं चारागाह, विकास	153 (B)	10	
असीर	2010-11	मिश्रित वृक्षारोपण	123	40	
असीर	2010-11	बांस वृक्षारोपण	134	75	
असीर	2010-11	गेप प्लांटिंग	134	25	
असीर	2010-11	सागौन रूटसूट रोपण ए. एन. आर. ई. जी. एस.	155	25	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	133	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (A)	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	136 (B)	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	156	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	178	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	148	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	149	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	144	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	160	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	118 (A)	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	118 (B)	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	162	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	26	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	27	100	

1	2	3	4	5	6
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	25	100	
असीर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त	150	50	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	135 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	135 (B)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	156 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	156 (B)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	169 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	136 (A)	10	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लान्टिंग	136 (B)	10	
असीर	2011-12	बांस वृक्षारोपण	133	40	
असीर	2011-12	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	167	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	127	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	117	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	141	50	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	135	40	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	136	40	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	155	50	

1	2	3	4	5	6
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	142	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	158	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	156	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	155	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	161	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	139	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	133	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	149	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	119	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	122	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	162	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	26	100	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	27	50	
असीर	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	136	50	
असीर	2014-15	चारागाह विकास योजना	136	50	
असीर	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	125	75	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	148	25	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	149	100	

1	2	3	4	5	6
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	150	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	159	100	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	158	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	135	100	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	139	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	141	90	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	150	40	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	117	50	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	162	50	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	122	70	
असीर	2016-17	आर. डी. एफ.	160 (A)	50	
असीर	2016-17	आर. डी. एफ.	160 (B)	50	
असीर	2016-17	आर. डी. एफ.	154	100	
असीर	2016-17	आर. ई. एफ.	117	100	
असीर	2016-17	आर. ई. एफ.	150	50	
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर	18	50	
बुरहानपुर	2011-12	ठाठर	17	50	
बुरहानपुर	2011-12	सोलाबर्डी गढताल	16	50	
बुरहानपुर	2011-12	गढताल	40	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	46	100	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	44	25	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	167	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	164	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	178	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	169	50	
बुरहानपुर	2011-12	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आर. डी. एफ.	169	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लॉटिंग	169 A	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ. गेप प्लॉटिंग	169 B	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	184	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	180	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	181	50	
बुरहानपुर	2011-12	आर. डी. एफ.	167	50	
बुरहानपुर	2012-13	उ. गढताल	46	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2012-13	पु. गढताल	36	50	
बुरहानपुर	2012-13	उ. बलडी	12	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	16	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	17	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	18	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	20	50	
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा	10	50	
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा	11	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	16	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	17	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	18	50	
बुरहानपुर	2013-14	प. सोलाबर्डी	44	50	
बुरहानपुर	2013-14	पु. सोलाबर्डी	45	50	
बुरहानपुर	2013-14	भौलाना	7	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	10	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	11	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	12	50	
बुरहानपुर	2013-14	पु. गढताल	36	50	
बुरहानपुर	2013-14	द. ठाठर	181	50	
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा	182	50	
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा	183	50	
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर	167	50	
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर	164	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबर्डी	40	50	
बुरहानपुर	2014-15	प. सोलाबर्डी	44	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबर्डी	38	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	179	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	181	50	
बुरहानपुर	2014-15	पीरबाबा	182	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	180	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. ठाठर	167	50	
बुरहानपुर	2014-15	लालबाग	11	50	
बुरहानपुर	2014-15	बिरोदा	16	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. बलडी	31	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. बलडी	22	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2014-15	उ. बसाली	49	50	
बुरहानपुर	2014-15	प. बसाली	51	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	169	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. बलडी	9	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबर्डी	41	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. ठाठर	168	50	
बुरहानपुर	2014-15	भौलाना	P-6	40	
बुरहानपुर	2014-15	उतावली	15	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	179	35	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	174	25	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	181	100	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	183	100	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	184	100	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	100	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	17	50	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	16	50	
बुरहानपुर	2015-16	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	
बुरहानपुर	2015-16	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. सोलाबर्डी (आर. डी. एफ.)	45	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बसाली (आर. डी. एफ.)	48	50	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	35	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	182	100	
बुरहानपुर	2015-16	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	164	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (आर. ई. एफ.)	169	100	
बुरहानपुर	2015-16	पूर्व गढताल (आर. ई. एफ.)	37	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बासली (आर. ई. एफ.)	49	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बलडी (आर. ई. एफ.)	22	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. उताम्बी (आर. ई. एफ.)	31	50	
बुरहानपुर	2015-16	प. बसाली (आर. ई. एफ.)	51	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. बसाली (आर. ई. एफ.)	34	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. बलडी (आर. ई. एफ.)	9	50	
बुरहानपुर	2015-16	सोलाबर्डी (आर. ई. एफ.)	42	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (वृक्षारोपण)	174	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (वृक्षारोपण)	179	50	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (वृक्षारोपण)	178	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2015-16	उताम्बी (वृक्षारोपण)	29	50	
बुरहानपुर	2015-16	उतावली (वृक्षारोपण)	15	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. बलडी (वृक्षारोपण)	9	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	181	100	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	183	100	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	184	100	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	100	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (आर. डी. एफ.)	17	50	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (आर. डी. एफ.)	16	50	
बुरहानपुर	2016-17	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	
बुरहानपुर	2016-17	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	
बुरहानपुर	2016-17	पू. सोलाबर्डी (आर. डी. एफ.)	45	50	
बुरहानपुर	2016-17	उ. बसाली (आर. डी. एफ.)	48	50	
बुरहानपुर	2016-17	पू. बसाली (आर. डी. एफ.)	35	50	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	182	100	
बुरहानपुर	2016-17	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	164	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. ठाठर (आर. ई. एफ.)	169	100	
बुरहानपुर	2016-17	पूर्व गढ़ताल (आर. ई. एफ.)	37	50	
बुरहानपुर	2016-17	उ. बसाली (आर. ई. एफ.)	49	50	
बुरहानपुर	2016-17	उ. बलडी (आर. ई. एफ.)	22	50	
बुरहानपुर	2016-17	पु. उताम्बी (आर. ई. एफ.)	31	50	
बुरहानपुर	2016-17	प. बसाली (आर. ई. एफ.)	51	50	
बुरहानपुर	2016-17	पु. बसाली (आर. ई. एफ.)	34	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. बलडी (आर. ई. एफ.)	9	50	
बुरहानपुर	2016-17	सोलाबर्डी (आर. ई. एफ.)	42	50	
बुरहानपुर	2016-17	पूर्व उताम्बी (मिश्रित वृक्षारोपण)	29	50	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (मिश्रित वृक्षारोपण)	178	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. ठाठर (मिश्रित वृक्षारोपण)	174	50	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (मिश्रित वृक्षारोपण)	1,2,3,17	50	
बुरहानपुर	2016-17	पूर्व गढ़ताल (मिश्रित वृक्षारोपण)	38	50	
शाहपुर	2011-12	बांस वृक्षारोपण	427	40	
शाहपुर	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	438	50	
शाहपुर	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	460	40	
शाहपुर	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	451	25	
बोदरली	2010-11	बांस वृक्षारोपण	369	40	

1	2	3	4	5	6
बोदरली	2011-12	बांस रोपण	369	30	
बोदरली	2011-12	बांस रोपण	371	40	
बोदरली	2011-12	आर. ई. एफ.	384	50	
बोदरली	2012-13	बांस रोपण	378	80	
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	471	12	
बोदरली	2012-13	आर. ई. एफ.	384	50	
बोदरली	2012-13	आर. ई. एफ.	398	50	
बोदरली	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	491	30	
बोदरली	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	499	25	
बोदरली	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	500	12	
बोदरली	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	491	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	298	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (बांस वृक्षारोपण)	263	50	
नावरा	2010-11	आर. डी. एफ. (मिश्रित वृक्षारोपण)	297	50	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	247	100	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	268	100	
नावरा	2011-12	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2011-12	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	294	20	
नावरा	2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	297	30	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं जलाऊ वृक्षारोपण	294 (I)	10	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं जलाऊ वृक्षारोपण	294 (II)	10	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	285	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	295	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	294	50	
नावरा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	247	40	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	248	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	298	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2012-13	गेप प्लांटिंग	266	10	
नावरा	2012-13	बांस वृक्षारोपण	295	50	
नावरा	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	247	50	

1	2	3	4	5	6
नावरा	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	251	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	266	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	247	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	248	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	297	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	298	20	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	272 (I)	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	272 (II)	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	266 (I)	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	266 (II)	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	247	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2015-16	अति. से मुक्त क्षेत्र में चैनलिंक फैसिंग	253	108	
नावरा	2015-16	अति. से मुक्त क्षेत्र में चैनलिंक फैसिंग	261	125	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	263	50	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2016-17	सिल्वीपाश्चर	295	28	
खकनार	2011-12	नानानगरी	355	50	
खकनार	2011-12	पाचोरी	362	50	
खकनार	2011-12	पाचोरी	363	50	
खकनार	2011-12	मांजरोद	307	50	
खकनार	2011-12	भौराघाट	313	100	
खकनार	2011-12	नावथा	327	20	
खकनार	2011-12	डवाली	326	100	
खकनार	2011-12	डवाली	335	100	

1	2	3	4	5	6
खकनार	2011-12	देवरी	337	100	
खकनार	2011-12	बोरखेडा	310	10	
खकनार	2011-12	बोरखेडा	310	10	
खकनार	2011-12	सामरिया	332	10	
खकनार	2011-12	करदली	347	10	
खकनार	2011-12	शंकरपुरा	338	10	
खकनार	2011-12	शंकरपुरा	338	10	
खकनार	2011-12	सोनूद	321	60	
खकनार	2011-12	शंकरपुरा	338	50	
खकनार	2011-12	भौराघाट	312	25	
खकनार	2011-12	भौराघाट	313	50	
खकनार	2011-12	रायतलाई	300	35	
खकनार	2011-12	नावथा	324	80	
खकनार	2012-13	भौराघाट	312	100	
खकनार	2012-13	पाचोरी	362	100	
खकनार	2012-13	पाचोरी	363	100	
खकनार	2012-13	नानानगरी	355	50	
खकनार	2012-13	भौराघाट	313	50	
खकनार	2012-13	सामरिया	330	50	
खकनार	2012-13	डवाली	326	50	
खकनार	2012-13	सोनूद	319	50	
खकनार	2012-13	मोहनगढ़	356	50	
खकनार	2012-13	नावथा	327	50	
खकनार	2012-13	देवरी	327	50	
खकनार	2013-14	गऊमाल	362	100	
खकनार	2013-14	गऊमाल	363	100	
खकनार	2013-14	अम्बाझोली	364	100	
खकनार	2013-14	पलासपानी	355	50	
खकनार	2013-14	पलासपानी	356	50	
खकनार	2013-14	नावथा	327	50	
खकनार	2013-14	भौराघाट	312	50	
खकनार	2014-15	सौनूद	319	50	
खकनार	2014-15	डवाली	326	100	
खकनार	2014-15	नावथा	327	100	
खकनार	2014-15	पलासपानी	356	50	

1	2	3	4	5	6
खकनार	2014-15	सामरिया	334	100	
खकनार	2014-15	अम्बाझोली	364	100	
खकनार	2014-15	डोईफोडिया	330	50	
खकनार	2015-16	डवाली	326	100	
खकनार	2015-16	डवाली	335	100	
खकनार	2015-16	सामरिया	334	100	
खकनार	2015-16	नानानगरी	355	50	
खकनार	2015-16	मोहनगढ़	356	50	
खकनार	2015-16	अम्बाझोली	364	100	

प्रपत्र-2

चराई वर्ष 2016-17 में पूर्ण बंद कम्पार्टमेंट की सूची बनमण्डल (सा.) बुरहानपुर

परिक्षेत्र	उपवन परिक्षेत्र	बीट	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल (है. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	456	50	RDF-2011-12
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	456	50	RDF-2011-12
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	474	50	RDF-2011-12
शाहपुर	मोहद	द. बंभाड़ा	452	50	RDF-2011-12
शाहपुर	मोहद	द. बंभाड़ा	453	50	RDF-2013-14
शाहपुर	मोहद	मोहद	449	50	RDF-2013-14
शाहपुर	मोहद	द. बंभाड़ा	474	30	RDF-2014-15
शाहपुर	मोहद	मोहद	439	50	RDF-2014-15
शाहपुर	मोहद	मोहद	450	50	RDF-2014-15
शाहपुर	मोहद	मोहद	439	50	RDF-2015-16
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	456	50	RDF-2015-16
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	454	50	RDF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	404	50	RDF-2011-12
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	408	50	RDF-2011-12
शाहपुर	जम्बूपानी	बडौदा	419	50	RDF-2011-12
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	408	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	405	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	पांछरी	412	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	404	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	405	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	408	50	RDF-2014-15

1	2	3	4	5	6
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	424	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	बडौदा	419	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	404	50	RDF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	बडौदा	419	50	RDF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	बडौदा	407	50	RDF-2011-12
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	427	50	RDF-2011-12
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	426	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	427	50	RDF-2014-15
शाहपुर	इच्छापुर	मोरझिरा	459	50	RDF-2011-12
शाहपुर	इच्छापुर	इच्छापुर	470	50	RDF-2011-12
शाहपुर	इच्छापुर	प. धामनगांव	462	50	RDF-2013-14
शाहपुर	इच्छापुर	प. धामनगांव	463	50	RDF-2014-15
शाहपुर	इच्छापुर	प. धामनगांव	462	50	RDF-2015-16
शाहपुर	इच्छापुर	मोरझिरा	457	50	RDF-2015-16
शाहपुर	इच्छापुर	इच्छादेवी	465	50	RDF-2015-16
शाहपुर	इच्छापुर	इच्छादेवी	464	50	RDF-2015-16
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	428	50	RDF-2011-12
शाहपुर	भावसा	राजौरा	446	50	RDF-2011-12
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	414	50	RDF-2011-12
शाहपुर	भावसा	राजौरा	445	50	RDF-2012-13
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	428	50	RDF-2013-14
शाहपुर	भावसा	राजौरा	444	50	RDF-2013-14
शाहपुर	भावसा	राजौरा	446	50	RDF-2013-14
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	428	50	RDF-2014-15
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	414	50	RDF-2014-15
शाहपुर	भावसा	राजौरा	443	50	RDF-2015-16
शाहपुर	भावसा	जामठी	441	50	REF-2011-12
शाहपुर	भावसा	जामठी	442	50	REF-2011-12
शाहपुर	भावसा	जामठी	440	50	REF-2011-12
शाहपुर	भावसा	राजौरा	447	50	REF-2014-15
शाहपुर	भावसा	जामठी	442	50	REF-2014-15
शाहपुर	भावसा	जामठी	448	100	REF-2015-16
शाहपुर	भावसा	राजौरा	447	100	REF-2015-16
शाहपुर	भावसा	जामठी	441	50	REF-2015-16
शाहपुर	भावसा	जामठी	442	50	REF-2015-16

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
खकनार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
बोदरली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
नेपानगर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
नावरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
असीर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
धुलकोट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

प्रपत्र-3

चराई वर्ष 2016-17 में बंद कूपों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल (सा.) बुरहानपुर

परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम/ कक्ष क्र.	कूप क्र.	क्षेत्रफल (है. में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
नेपानगर	हसनपुरा	213	V, VI, VI	274.00	-
नेपानगर	हसनपुरा	210	II	157.89	-
नेपानगर	हसनपुरा	203	III, IV	315.59	-
नेपानगर	अहमदनगर	243	II, III	425.67	-
नेपानगर	अहमदनगर	242	VI	214.76	-
नेपानगर	मांडवा	213	VI	77.85	-
नेपानगर	हसनपुरा	212	VII	63.10	-
नेपानगर	हसनपुरा	212	VIII	104.18	-
नेपानगर	हसनपुरा	212	IX	174.04	-
धुलकोट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-
असीर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-
बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-
शाहपुर	भावसा	436	V	159.57	SCI-2011-12
शाहपुर	जम्बुपानी	423	V	102.47	SCI-2011-12
शाहपुर	जम्बुपानी	423	VI	160.34	SCI-2012-13
शाहपुर	जम्बुपानी	423	VII	99.22	SCI-2013-14
शाहपुर	जम्बुपानी	423	VIII	102.82	SCI-2014-15
शाहपुर	जम्बुपानी	418	IX	162.23	SCI-2015-16
बोदरली	तारापाटी	395	V, VI, VII, VIII, IX, X, XI	444-44	-
बोदरली	जसौंदी	402	V, VI, VII, VIII, IX	511.86	-
बोदरली	चौण्डी	430	VI, VII	358.36	-
बोदरली	दांत पहाड़ी	365	V, VI, VII	376.44	-
बोदरली	धावटी	378	V, VI, VII	349.02	-

1	2	3	4	5	6
बोदरली	धावटी	382	VIII,IX,X	373.02	-
बोदरली	आमगांव	368	VI,VII,VIII,IX	544.85	-
बोदरली	दांत पहाड़ी	374	X,XI	252.32	-
बोदरली	दांत पहाड़ी	375	VIII, IX	295.14	-
बोदरली	आमगांव	377	X,XI	186.08	-
बोदरली	जसौंदी	399	X,XI	199.01	-
नावरा	बाकड़ी	260	IV	203.62	-
नावरा	छिरवा	276	IV	100.57	-
नावरा	गोंडवाडी	282	IV	68.40	-
नावरा	गुजरीखेड़ी	283	IV	80.30	-
नावरा	मझगांव	288	IV	84.15	-
नावरा	डवाली	291	IV	71.30	-
नावरा	टुलियामाल	237	IV	117.67	-
नावरा	हैदरपुर	273	IV	116.40	-
नावरा	बाकड़ी	262	IV	120.30	-
नावरा	बाकड़ी	260	IV	203.62	-
नावरा	छिरवा	276	IV	100.57	-
नावरा	गोंडवाडी	282	IV	68.4	-
नावरा	गोंडवाडी	283	IV	80.3	-
नावरा	मझगांव	288	IV	84.15	-
नावरा	डवाली	291	IV	71.3	-
नावरा	टुलियामाल	237	IV	117.67	-
नावरा	हैदरपुर	273	IV	116.4	-
नावरा	बाकड़ी	262	IV	120.3	-
नावरा	बाकड़ी	260	V	96.45	-
नावरा	छिरवा	276	V	93.01	-
नावरा	गोंडवाडी	282	V	85.5	-
नावरा	गुजरीखेड़ी	283	V	107.07	-
नावरा	मझगांव	288	V	133.5	-
नावरा	डवाली	291	V	76.75	-
नावरा	टुलियामाल	237	V	126.45	-
नावरा	डेहलिया	254	V	184.78	-
नावरा	साईखेड़ा खुर्द	267	V	76.92	-
नावरा	हैदरपुर	270	VI	131.11	-
नावरा	हीरापुर	274	VI	219.82	-

1	2	3	4	5	6
नावरा	छिरवा	276	VI	104.85	-
नावरा	गोंडवाडी	282	VI	161.22	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	283	VI	111.25	-
नावरा	धमनपुरा	286	VI	79.2	-
नावरा	डवाली	291	VI	84.15	-
नावरा	बाकड़ी	254	VI	200.92	-
नावरा	हिवरा	274	VII	111.82	-
नावरा	बाकड़ी	276	VII	90.42	-
नावरा	छिरवा	281	VII	95.69	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	VII	82.55	-
नावरा	मझगांव	286	VII	112.12	-
नावरा	साजनी	289	VII	102.05	-
नावरा	अहमदनगर	256	VII	151.55	-
नावरा	डेहरिया	249	VII	165.25	-
नावरा	हैदरपुर	270	VII	95.17	-
नावरा	हिवरा	274	VIII	90.45	-
नावरा	बाकड़ी	280	VIII	72.82	-
नावरा	छिरवा	281	VIII	69.3	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	VIII	72.42	-
नावरा	मझगांव	286	VIII	97.92	-
नावरा	साजनी	289	VIII	99.62	-
नावरा	अहमदनगर	256	VIII	180.75	-
नावरा	डेहरिया	249	VIII	148.27	-
नावरा	हैदरपुर	270	VIII	99.67	-
नावरा	हिवरा	261	IX	173.02	-
नावरा	बाकड़ी	280	IX	64.57	-
नावरा	छिरवा	281	IX	80.1	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	IX	56.22	-
नावरा	मझगांव	286	IX	122.25	-
नावरा	साजनी	289	IX	101.4	-
नावरा	अहमदनगर	238	IX	98.72	-
नावरा	डेहरिया	265	IX	209.89	-
नावरा	हैदरपुर	267	IX	134.75	-
नावरा	हिबरा	261	X	163.57	-
नावरा	बाकड़ी	280	X	70.92	-

1	2	3	4	5	6
खकनार	सामरिया	338	V, VI, VII	719.02	-
खकनार	मोहनगढ़	349	V, VI, VII, VIII, IX, X	537.82	-
खकनार	पाचोरी	361	V, VI, VII, VIII	168.34	-
खकनार	पांगरी	358	V, VI, VII, VIII, IX, X	502.95	-
खकनार	पांगरी	317	VI, VII, VIII	428.66	-
खकनार	सामरदेव	315	VI	76.42	-
खकनार	भौराघाट	318	VII, VIII, IX, X	357.46	-
खकनार	भौराघाट	332	VIII, IX	347.36	-
खकनार	धाबा	328	IX, X	246.57	-
खकनार	सामरिया	331	X	102.4	-
खकनार	पाचोरी	360	IX, X	326.95	-

(587)

डी. एस. कनेश,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 20 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/16-17/118.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/जी.डब्लू.एल.आर./एच.ओ./99, दिनांक 12 मार्च, 1963 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, संभाग ग्वालियर के आदेश क्रं./परि./2016, ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(590)

अनुभा सूद,
परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	चम्बल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव	866/05-03-1997	1542/13-08-2009

1	2	3	4
2.	महिला कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, ग्वालियर	784/13-02-1995	967/21-03-2016
3.	आदर्श सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सुसेरा, ग्वालियर	285/16-07-1970	02/02-01-1982
4.	आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., करही, ग्वालियर	310/29-01-1971	02/02-01-1982
5.	आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., रायस, ग्वालियर	250/30-01-1968	02/02-01-1982
6.	आदिवासी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., बरई, ग्वालियर	552/22-02-1991	489/02-12-1990
7.	संतोषी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरई, ग्वालियर	932/12-05-2003	975/21-03-2016
8.	सहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चैत बरई, ग्वालियर	992/20-10-1991	977/21-03-2016
9.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगा मालनपुर	957/26-06-2004	968/21-03-2016
10.	मंशादेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घर घाटीगांव, ग्वालियर	979/20-08-2007	985/21-03-2016
11.	नैमीनाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पनिहार, ग्वालियर	936/03-03-2004	980/21-03-2016
12.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरनागत, ग्वालियर	967/10-08-2004	984/21-03-2016
13.	अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., इस्माईलपुर, ग्वालियर	365/14-08-1978	763/26-03-1998
14.	फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	514/26-12-1989	546/07-02-2005
15.	ग्वालियर फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर		
16.	मशीन कढाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर	462/06-03-1985	965/21-03-2016
17.	एम. ई. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	868/16-06-1997	544/12-02-2005
18.	आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., दोहर, ग्वालियर	253/28-10-1996	2673/22-08-2000
19.	हरिजन आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., रेहट, ग्वालियर	117/26-06-1954	2674/22-08-2000
20.	हरिजन खनिज कामगार खदान सहकारी संस्था मर्या., रामपुर घाटीगांव	278/07-09-2000	2477/13-09-2004
21.	साँई फल-फूल, साग-सब्जी एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव	257/03-05-1997	315/20-02-1998
22.	विषणन सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव, ग्वालियर	244/13-03-1996	77/07-01-2005
23.	पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, ग्वालियर	306/25-05-2002	1012/29-03-2016
24.	अनुसूचित जाति, जनजाति कामगार कारीगरों की संस्था मर्या., आरोन	709/02-07-1994	1082/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेब्सित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(591)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन आदेश
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	134/20-04-1987	2990/14-11-2014
2.	मणिधारी दादा जैन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	308/18-07-2002	576/27-03-2012
3.	श्री तिरुपति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	279/05-09-2000	1111/31-03-2016
4.	जय त्रिपूर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	153/12-05-1989	239/31-07-1996
5.	एम. आई. टी. एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	201/01-09-1993	1317/16-07-1997
6.	सर्वे गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	164/11-10-1989	2592/31-10-2002
7.	सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	191/09-07-1992	2592/31-10-2002

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(591-A)

भूपेन्द्र पाल सिंह,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016-श्रावण 21, शके 1938

भाग 3 (2)

निरंक